




Bilingual assistance is available in English, Mandarin (普通话/普通話), Cantonese (广东话/廣東話), Korean (한국어), Vietnamese (Tiếng Việt), Tagalog, Urdu (اردو), Hindi (हिन्दी), and Bengali/Bangla (বাংলা).



क्या मेरा मतदान गिना गया था? मतदान करने के बाद क्या करना है!

कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मतपत्र की गिनती न हो। चुनाव के दिन के बाद कई दिनों तक मतपत्रों की गिनती जारी रहती है, इसलिए आपको कुछ ऐसी समस्याओं को ठीक करने का समय मिल सकता है जिनके कारण आपके मतपत्र की गणना नहीं की गई। अपने मतदान की गिनती सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित चीज़ें कर सकते हैं।

चुनाव का दिन: मंगलवार, नवंबर 8, 2022

डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र

- ◆ अपने डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र को ट्रैक करें और सुनिश्चित करें कि इसकी गणना की गई है। आप www.ballotready.org पर प्रत्येक राज्य की ट्रैकिंग जानकारी पा सकते हैं।
 - **जल्दी ट्रैक करना शुरू करें** – किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर सीमित समय होता है।
- ◆ यदि आपके डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र की गणना की गई है – डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र की गणना न होने के सामान्य कारण:
 - **हस्ताक्षर का मेल खाना** – आपके डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र पर हस्ताक्षर उस हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है जो सरकार के पास आपके रिकॉर्ड में हैं।
 - **निर्देशों का पूरी तरह से या सही ढंग से पालन करने में विफलता।**
 - **अपनी पहचान की प्रति शामिल करने में विफलता।**
- ◆ यदि आपको अपने डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र को ट्रैक करने या यह पता लगाने में सहायता चाहिए कि क्या आप अपने डाक/अनुपस्थित लोगों के मतपत्र की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं या नहीं, तो **1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)** हॉटलाइन पर कॉल करें।

अस्थायी मतपत्र

- ◆ यदि आपने एक अस्थायी मतपत्र के द्वारा मतदान किया है, तो आपकी स्थानीय या राज्य सरकार को आपको यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए थी कि आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि जब आपने मतदान किया था तो आपके अस्थायी मतपत्र की गणना की गई थी या नहीं।
- ◆ यदि आपने एक अस्थायी मतपत्र के द्वारा मतदान किया है और इसकी गणना नहीं की गई है, तो कुछ मामलों में आप इसे गिनाए जाने के लिए स्वयं कदम उठा सकते हैं – अस्थायी मतपत्र की गणना न करने के सामान्य कारण:
 - **मतदाता का रजिस्ट्रेशन** – यदि आपको लगता है कि आपने मतदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन आपका नाम आपके सही मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नहीं आया है, तो आपके मतदाता रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या हो सकती है जिसे आप अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी की मदद से हल कर सकते हैं।
 - **पहचान** – यदि आप मतदान के लिए एक उचित पहचान दस्तावेज़ लाना भूल गए हैं, तो कुछ मामलों में आप इसे अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों के पास ला सकते हैं।
 - **हस्ताक्षर का मेल खाना** – यदि आपके हस्ताक्षर चुनाव रिकॉर्ड के पास फ़ाइल में मौजूद आपके हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो चुनाव के बाद चुनाव अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं।
- ◆ यदि आपको यह पता लगाने में सहायता चाहिए कि क्या आपके अस्थायी मतपत्र की गणना की गई है या किसी भी समस्या को कैसे ठीक किया जाए क्योंकि ऐसा करने के लिए सीमित समय हो सकता है, तो **1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)** हॉटलाइन पर कॉल करें।

इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए <https://www.advancingjustice-aaajc.org/election2022> पर जाएं।

आप मतदान के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए **1-888-API-VOTE (1-888-274-863)** पर कॉल भी कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो। हम चुनाव के दिन तक, चुनाव के दिन, और उसके बाद मदद प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।